

हवाला: मिडल यिर्ज़ डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट (MDI)

प्रिय परिवारो,

हैमिल्टन-वेंटवर्थ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (HWDSB) में, हम बाधाओं को पहचानने और हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि सभी छात्र समर्थक, समावेशी और सम्मान पूर्ण वातावरणों में शिक्षा-प्राप्त करें। हम ऐसे कार्यक्रमों, सहायताओं और सेवाओं के माध्यम से छात्रों की कुशलता का समर्थन भी करते हैं जो स्वस्थ विकास और कोविड-19 महामारी से चंगा होने को बढ़ावा देते हैं।

नवंबर में, ग्रेड 4 से 12 तक के छात्र मिडल यिर्ज़ डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट (एमडीआई-MDI) को पूरा करेंगे। ग्रेड 4 से 8 के छात्रों ने 2018 में इस सर्वेक्षण को पूरा किया और एलिमेंट्री और सेकंडरी दोनों में कुछ छात्रों ने पिछली वसंत में एमडीआई का एक छोटा संस्करण पूरा किया। नवंबर में, छात्र यह ऑनलाइन सर्वेक्षण स्कूल स्टाफ की देखरेख में स्कूल टाइम के दौरान करेंगे। आपके बच्चे के उत्तर निजी, गोपनीय होंगे और उनकी पहचान नाम से नहीं की जाएगी।

अध्ययन का उद्देश्य क्या है?

HWDSB मध्य वर्षों में बाल विकास के उन पहलुओं को बेहतर ढंग से समझना चाहता है जो कुशलता, स्वास्थ्य और स्कूल में सफलता को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षण छात्रों से उनके विचारों, भावनाओं और स्कूल और समुदाय में अनुभवों के बारे में पूछेगा। HWDSB अध्ययन के परिणामों का उपयोग उन कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए करेगा जो बच्चों के लिए अंतर लाते हैं।

सर्वेक्षण छात्रों से इसके बारे में प्रश्न पूछता है:

- 1) सामाजिक और भावनात्मक विकास, जैसे आत्म-सम्मान, आशावाद, खुशी और सहानुभूति;
- 2) स्कूल, परिवार, दोस्तों और समुदायों से जुड़ाव की भावनाएँ;
- 3) स्कूल के अनुभव;
- 4) शारीरिक स्वास्थ्य और कुशलता; तथा
- 5) स्कूल के समय के बाद समय का उपयोग, साथ ही स्कूल के बाद के समय के लिए बच्चों की इच्छाएँ।

मेरे बच्चे की गोपनीयता की सुरक्षा कैसे की जाती है?

इस अध्ययन में आपके बच्चे की पहचान नाम से नहीं की जाएगी। आपके बच्चे के उत्तर आपको या किसी स्कूल या स्कूल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यह, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक बच्चे के उत्तर निजी और गोपनीय हैं। अध्ययन से कोई जानकारी आपके बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में नहीं जोड़ी गई है।

यदि MDI जानकारी का उपयोग शोध प्रकाशनों या सार्वजनिक दस्तावेजों में किया जाता है, तो आपके बच्चे और आपके बच्चे के स्कूल की किसी भी तरह से पहचान नहीं की जाएगी। यदि आपका बच्चा किसी भी समय सर्वेक्षण में भाग नहीं लेना चाहता है, तो उनके शिक्षक वैकल्पिक स्कूल गतिविधि मुहैया करेंगे।

MDI पर व्यक्तिगत जानकारी म्युनिसिपल फ्रीडम अव इन्फॉर्मेशन ऐन्ड प्रोटेक्शन अव प्राइवैसी ऐक्ट (MFIPPA) की धारा 28 (2) के अनुपालन में एकत्र की जाती है, जिसमें कहा गया है कि कानूनी रूप से अधिकृत गतिविधियों में लगे संगठन आवश्यक होने पर व्यक्तियों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर सकते हैं। MDI हर 2 साल में छात्रों को उनके स्कूल के माहौल के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए स्कूल बोर्डों के लिए शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है।

स्कूल और समुदाय को कैसे लाभ होगा?

MDI अध्ययन शिक्षकों, कार्यक्रम योजनाकारों और समुदाय के सदस्यों को खुद बच्चों की आवाज के माध्यम से बच्चों के जीवन के बारे में जानने में मदद करता है। आपका स्कूल और समुदाय बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिणामों का उपयोग कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यह अध्ययन स्थानीय बच्चों और परिवारों को कई सकारात्मक लाभ प्रदान करता है।

HWDSB यह सुनिश्चित करने के लिए हैमिल्टन शहर सहित भागीदारों के साथ काम करेगा कि हम अपने समुदाय में छात्रों की जरूरतों को पूरा करें। हम बच्चों और युवाओं के लिए उसकी प्रोग्रामिंग और सेवाओं को सूचित और समृद्ध करने के लिए सर्वेक्षण से गैर-पहचाने गए डेटा को हैमिल्टन शहर के साथ साझा करेंगे।

में और जानकारी कहां से प्राप्त कर सकता/ती हूँ?

कृपया MDI, जिसका उपयोग कनाडा के अन्य अधिकार क्षेत्रों में किया जाता है, के बारे में ऑनलाइन www.earlylearning.ubc.ca/mdi पर अधिक जानें।

आप <https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/>

पर हमारी वेबसाइट पर भी मिडल यिर्ज डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी और संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपके बच्चे की भागीदारी के बारे में आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया अनुसंधान और विश्लेषिकी विभाग से research@hwdsb.on.ca 905-527-5092 पर संपर्क करें।

भवदीय,

हैमिल्टन-वेंटवर्थ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड
अनुसंधान और विश्लेषिकी विभाग